



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 13]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 2001/पौष 18, 1922

No. 13]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 2001/PAUSA 18, 1922

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2001

विषय : परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000—2004)—उन देशों के संबंध में जहां ऐसे निर्यात वस्त्र एवं क्लोदिंग संबंधी करार के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंधों के अधीन हैं।

सं. 13/33/2000 निर्यात-1.—1. उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 नवंबर, 1999 की अधिसूचना सं. 1/128/99 निर्यात-1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका बाद में दिनांक 10 दिसंबर, 1999, तथा 7 फरवरी, 2000 की समसंख्यक अधिसूचनाओं और दिनांक 13 जून, 2000 की अधिसूचना सं. 1/133/2000-निर्यात-1 द्वारा संशोधित किया गया है। अधिसूचना को निम्नानुसार और संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :—

2. उप-पैरा 5(iv) के पश्चात् निम्नलिखित को स्थापित किया जाए :—

(v) तथापि, निम्नलिखित शर्तों पर प्रथम खंड कोटा (देश/वर्ग विशेष में) को भाग दो अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(क) वह निर्यातक जिसने भाग 2 कोटा (देश/वर्ग विशेष में) के किसी भाग को अंतरित नहीं किया है केवल वही भाग 1 कोटा (देश/वर्ग विशेष में) को भाग दो अवधि तक बढ़ाने का पात्र होगा।

(ख) कोटा के द्वितीय भाग को जिस देश/वर्ग में बढ़ाने का निर्यातक इच्छुक है और यहां तक कि द्वितीय खंड कोटा, उस राष्ट्र/वर्ग विशेष में पूरे आवंटन वर्ष के दौरान अहस्तांतरणीय रहेगा; और

(ग) निर्यातक को इस वर्ग में बढ़ाए गये भाग 1 कोटा और पूरे भाग 2 कोटा के लिए तृतीय-पक्ष लदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. तदनुसार, तदन्तर उप-पैरा को क्रम संख्या को बदलकर (vi) से (xiv) कर दिया जाएगा।

4. उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित अधिसूचना की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

